

11/8/11

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 230
द्वारा- माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र पटेल
राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत की गई शहरों की परिवेशीय वायु मापन विगत 03 वर्षों के औसत परिणाम:-
इकाई - माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत की गई शहरों की परिवेशीय वायु मापन विगत 03 वर्षों के औसत परिणाम:-

इकाई - माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर

शहर	वर्ष 2015					वर्ष 2016					वर्ष 2017					
	सल्फरडाइ ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड	विविक्त पदार्थ (10 माइक्रॉन से कम आकार)	विविक्त पदार्थ (2.5 माइक्रॉन से कम आकार)	सल्फरडाइ ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड	विविक्त पदार्थ (10 माइक्रॉन से कम आकार)	विविक्त पदार्थ (2.5 माइक्रॉन से कम आकार)	सल्फरडाइ ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड	विविक्त पदार्थ (10 माइक्रॉन से कम आकार)	विविक्त पदार्थ (2.5 माइक्रॉन से कम आकार)	सल्फरडाइ ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड	विविक्त पदार्थ (10 माइक्रॉन से कम आकार)	विविक्त पदार्थ (2.5 माइक्रॉन से कम आकार)
भोपाल	3.28	22.38	163.97	88.47	2.58	14.81	86.89	26.06	3.69	14.24	90.22	37	3.69	14.24	90.22	37
इंदौर	10.70	20.20	97.12	-	10.30	19.99	108.00	64.11	10.77	20.38	78.62	46.67	10.77	20.38	78.62	46.67
ग्वालियर	10.38	13.77	119.94	78.18	10.04	13.76	100.18	56.93	10.27	72.94	111.91	48.59	10.27	72.94	111.91	48.59
जबलपुर	17.92	24.98	87.90	31.12	17.92	24.98	87.90	38.78	9.90	20.81	73.85	23.08	9.90	20.81	73.85	23.08
खण्डवा	8.42	16.56	172.6	-	5.35	15.44	180.5	-	14.20	27.21	168.74	-	14.20	27.21	168.74	-
सागर	2.41	18.31	106.90	40.41	2.07	12.03	77.22	29.76	2.08	11.80	69.42	25.27	2.08	11.80	69.42	25.27
उज्जैन	12.81	13.96	91.95	46.13	14.85	17.71	90.10	48.64	13.20	14.85	73.58	35.83	13.20	14.85	73.58	35.83
कटनी	-	-	69.84	45.67	4.10	23.90	75.87	45.67	11.97	26.66	84.10	41.8	11.97	26.66	84.10	41.8
सतना	3.83	7.53	99.16	-	2.35	7.40	57.60	24.50	3.30	12.12	81.36	30.32	3.30	12.12	81.36	30.32

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ब्यालीस'

परिशिष्ट [क्र. 230]

[7/3/2018]